



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 1981/पौष 3, 1903
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 1981/PAUSA 3, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1981

का० नि० आ० 37-ई०:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड खड़की के गठन में फेरफार होना वांछनीय है, एतद्वारा तब से घोषणा करती है और यह प्रतिरिक्त निवेदन देती है कि 7 जनवरी, 1982 से एक वर्ष की कालावधि के लिए उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या 29/35/सी/एल एण्ड सी/77/3647-सी/डी (न्यू एण्ड सी)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd December, 1981

R.O. 37.E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), Central Government, being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitu-

tion of the Cantonment Board, Kirkee, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of one year with effect from the 7th January, 1982.

[File No. 29/35/C/L&C/77/3647-C/D (Q&C)]

का० नि० आ० 38-ई०:—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का नि० आ० 37-ई दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के साथ जोकि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 24 दिसम्बर, 1981 के भाग 2 खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसिंग कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड, खड़की के संस्था के रूप में 7 जनवरी, 1982 से मनोनीत किया गया है:—

1. त्रिगेडियर एस० एस० भोगल धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित

2. श्री बलिराम बापू सावंत धारा 14 की उपधारा (2) के
अण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या-29/35/सी०/एल एण्ड सी/77/3642/1-सी/डी2
(क्यू एण्ड सी)]

भास्कर घोष, संयुक्त सचिव

S.R.O. 38-E.—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 37-E, dated the 22nd December, 1981, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Sec-

tion 4 dated the 24th December, 1981, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station, to be the members of the Cantonment Board, Kirkee with effect from 7th January, 1982 :—

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Brig. S.S. Bhogal | nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14. |
| 2. Shri Baliram Bapu Sawant | nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14. |

[File No. 29/35/C/L&C/77/3642/1-C/D(Q&C)]

BHASKAR GHOSE, Jt. Secy.